

प्रस्तावना

- ❖ भुसावल मंडल मध्य रेल का एक महत्वपूर्ण मंडल है, जो मुंबई-हावड़ा और मुंबई-नई दिल्ली मुख्य रास्ते पर स्थित है। यह मंडल दक्षिण मध्य रेल, पश्चिम रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे के साथ जुड़ा हुआ है। केला, अंगुर, अनार, और प्याज के लिए प्रसिद्ध है। मंडल पर स्थित अजंता और एलोरा विश्व प्रसिद्ध गुफाएं त्र्यंबकेश्वर (12 ज्योतिर्लिंगों में से एक) और पंचवटी धार्मिक स्थल शिर्डी और शेगांव (श्री साई बाबा और श्री गजानन महाराज प्रसिद्ध मंदिर) और बुरहानपुर में स्थित दरगाह-ए-हकिमी जैसे प्रसिद्ध स्थल हैं। प्रत्येक 12 वर्ष बाद पवित्र कुंभ मेला नाशिक में मनाया जाता है।
- ❖ मंडल पर कुल 17 स्टेशनों पर यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) की सुविधा प्रदान की गई है। 14 स्टेशनों पर यूटीएस कम पीआरएस प्रणाली की सुविधा है। मंडल के 67 स्थानों पर अनारक्षित टिकट प्रणाली का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त मालेगांव, त्र्यंबकेश्वर और अर्नि पोस्ट ऑफिस में पीआरएस की सुविधा प्रदान की गई है। बुलढाना में गैर रेल खाते पर पीआरएस की सुविधा का प्रावधान किया गया है। भुसावल में आरक्षण टिकट प्राप्त करने हेतु एक यात्री टिकट सुविधा केंद्र (वाय.टी.एस.के.) का प्रावधान किया गया है।
- ❖ इसके अलावा 8 स्टेशनों पर 19 जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक (जेटीबीएस) की नियुक्ति की गई है। यात्रियों को टिकट देने के लिए 32 एन एस जी -6 (ई) श्रेणी स्टेशनों पर 32 स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट की नियुक्ति की गई। एन एस जी-2, एन एस जी-3 तथा एन एस जी-4 श्रेणी के स्टेशनों पर 18 एटीवीएम और 03 कोटीवीएम को स्थापित कर उससे अनारक्षित टिकटिंग की सुविधा का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त भुसावल मंडल के सभी स्टेशनों पर यु टी एस मोबाइल ऐप द्वारा पेपरलेस टिकटिंग की सुविधा का प्रावधान किया गया है।
- ❖ यथार्थ और पार्सल की जल्द बुकिंग हेतु नाशिक रोड, मनमाड, भुसावल और अकोला स्टेशनों पर पार्सल प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) का प्रावधान किया गया।
- ❖ गुड्स और साइडिंग:- माल यातायात के संचालन हेतु 18 फुल रिक हैंडलिंग और 03 हाफ रिक गुड्स और 03 पीओएल, 03 पावर हाउस एक सीमेंट, एक एफसीआय, एक पेपर मिल साइडिंग को उपलब्ध कराया गया है। नाशिक और बडनेरा स्टेशनों पर रेल साइड वेयर हाउसिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई।
- ❖ यातायात भाडा:- पेट्रोलियम आयल और ल्यूब्रीकेंट्स (पीओएल) भाडा अर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। पानेवाड़ी में बीपीसीपी साइडिंग से पीओएल लदान का उदभव स्थान से यातायात भाडे का सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है। अन्य माल में जैसे प्याज, सीमेंट, डीओसी, मक्का आदि का यातायात अर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।
- ❖ नासिक रोड, मनमाड, जलगांव, भुसावल, अकोला, बडनेरा अमरावती और खंडवा स्टेशनों पर उच्च दर्जे की स्वच्छता का रखरखाव करने हेतु मशीन द्वारा स्वच्छता के ठेकों को दिया गया है।